



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{2}{9} \times \frac{1}{6} =$$

$$\frac{4}{5} \times \frac{1}{6} =$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{5}{3} =$$

$$\frac{4}{6} \times \frac{4}{3} =$$

$$\frac{2}{8} \times \frac{7}{3} =$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{9} =$$

$$\frac{6}{9} \times \frac{5}{6} =$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{7}{6} =$$

$$\frac{3}{2} \times \frac{6}{4} =$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{1}{8} =$$



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{2}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{27}$$

$$\frac{4}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{15}$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{5}{3} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{4}{6} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$$

$$\frac{2}{8} \times \frac{7}{3} = \frac{7}{12}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{9} = \frac{1}{9}$$

$$\frac{6}{9} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{9}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{7}{6} = \frac{7}{9}$$

$$\frac{3}{2} \times \frac{6}{4} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{20}$$